

प्रेषक,

अविनाश सक्सेना

एच.जे.एस.

पीठासीन अधिकारी / जनपद न्यायाधीश

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण

लखनऊ मण्डल, लखनऊ

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद

पत्रांक: २५७ / भू०अ०पु०० और पुन०प्राधि० / २०२१

लखनऊ : दिनांक ०९-४-२०२१

विषय: सहायक अभियोजन अधिकारी (राजपत्रित) के पद पर दिनांक १५.०४.१९९१ से दिनांक ०४.०९.१९९३ तक की गयी सेवा अवधि को न्यायिक सेवा अवधि के साथ जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि लोक सेवा आयेग द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी (राजपत्रित) प्रतियोगिता परीक्षा-१९८८ के आधार पर चयनित होने पर पत्र संख्या एक-दो-१३६-८४/१५६८, दिनांक ०१ अप्रैल, १९९१ (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति सहायक अभियोजन अधिकारी (राजपत्रित) के पद पर हुई थी, जिसके कम में प्रार्थी के द्वारा दिनांक १५.०४.१९९१ की पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया तदोपरान्त प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने अपना योगदान सहायक अभियोजन अधिकारी (राजपत्रित) के पद पर दिया।

प्रार्थी का चयन लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा १९८९ के आधार पर उ०प्र० न्यायिक सेवा में मुसिफ के रूप में चयन हो जाने के पश्चात् नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया और परिणामस्वरूप दिनांक ०४.०९.१९९३ की अपरान्ह में कार्यमुक्त हुआ (कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न), जिसके पश्चात् दिनांक ०६.०९.१९९३ को मुसिफ के पद पर प्रतापगढ़ जनपद में अपना योगदान प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण किया (योगदान आख्या की छायाप्रति संलग्न)।

दिनांक ०५.०९.१९९३ को रविवार होने के कारण तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़ महोदय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लैटर के आलोक में रविवार छुट्टी के दिन किसी भी नये मुसिफ को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा, मानते हुए प्रार्थी को दिनांक ०५.०९.१९९३ को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया, जिस हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश/ज्वाइनिंग लीव के रूप में मानते हुए उसकी सेवाओं को जोड़े जाने की याचना कर रहा हूँ।

इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा दिनांक १५.०४.१९९१ से दिनांक ०४.०९.१९९३ तक सहायक अभियोजन अधिकारी (राजपत्रित) के पद पर कार्य करते हुए नियमानुसार कार्यमुक्त होकर अपर मुसिफ, प्रतापगढ़ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त दोनों सेवायें उ०प्र० राज्य सरकार के अधीन हैं तथा नियमानुसार कार्यमुक्त होकर नये पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रार्थी द्वारा की गयी दोनों सेवाओं की सेवा-पुस्तिकाओं की छायाप्रति स्व-प्रमाणित कर पत्र के साथ श्रीमान जी के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ संलग्न कर रहा है।

अतः श्रीमान जी से ससम्मान अनुरोध है कि सहायक अभियोजन अधिकारी (राजपत्रित) के पद पर दिनांक १५.०४.१९९१ से दिनांक ०४.०९.१९९३ तक की सेवा अवधि, रविवार दिनांक ०५.०९.१९९३ के अवकाश को स्वीकृत करते हुये प्रार्थी की न्यायिक सेवा अवधि में जोड़े जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रार्थी इस हेतु सदैव आभारी रहेगा।

सादर सम्मान सहित!

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भगवीय,

(अविनाश सक्सेना)

एच.जे.एस.

०९-०४-२०२१

पीठासीन अधिकारी / जनपद न्यायाधीश
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ